

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, डिहरी

पत्रांक.....1275 (380)

डिहरी / दिनांक 29/11/2024

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, डिहरी

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी -सह सचिव
बिहार ग्रामीण पथ विकास एजेंसी
ग्रामीण कार्य विभाग बिहार पटना।

विषय :- MMGSY Gen (Maint.) में किये गये कार्य के विरुद्ध आवंटन उपलब्ध
कराने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि MMGSY Gen (Maint.)
अन्तर्गत कराये गये कार्यों के विरुद्ध संवेदक को भुगतान करने हेतु अधियाचना विहित प्रपत्र
में भरकर आवश्यक कार्यवाही हेतु समर्पित की जाती है। इस पथ में कोई भी ATR लंबित
नहीं है। उक्त पथ का समी डाटा की प्रकृति MIS पर अद्यतन है।

अनु :- यथोक्त।

विश्वासभाजन

[Signature]
29/11/2024
कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, डिहरी

[Signature]
29-11-24

FORM GFR 19 -A

(SEE GOVERNMENT of India's Decesion (I) below Rule - 150)
Forms of Utilisation Certificate upto the Month of Nov. 2024

PIU - RWD DEHRI

S.No	Name of Scheme	Sanction No. & Date	Amount Received	Particulars
		With amount(In Rs. Lacs)	(In Rs. Lacs)	
1	Contruction of Rural Road	200 / 23.01.24	83.07743	Certificate that out of Rs. 83.07743 Lacs received during the years in favour of Executve Engineer , RWD Dehri Bihar. Sum of Rs. 79.02805 Lacs has been utilised for the purpose of MMGSY-SC hences as given in the margin for which it was sanctioned and that the balance of Rs. 4.04938 Lacs remaining unutilized at the end of the period under.

2 Certified that I have satisfied myself that the conditions on which the grand-in-aid was sanctioned have been duly .

fulfilled / are being fulfilled and that I have exercised the following checks to see that the money was actually utilized.

for the purpose for which it was sanctioned.

Kind of Checks exercised :-

- Works have been supervised by Executive Engineer / Supertending Engineer.
- Periodical inspectioin has been conducted by Executive Engineer / Supertending Engineer.
- Construction materials have been tested.
- Measurements have been recorded in the MBs and test check conducted by the Assistant.
- All other codal formalities have been observed.

3 **Physical Progress achieved :-**

- Construction of Road works.
- Construction of CD works.

Mlo12
29.11.24
D.A.O
RWD (W) Div. Dehri

gobf
29/11/2024
Executive Engineer
RWD (W) Div. Dehri
Him
29-11-24

Rural works Department
Requisition of Five Year Maintenance Road

SCHEME:- MMGSY (GEN) Maint.

Name of Division- Rural Works Department, Works Division, Dehri

Sl. No.	Name of Roads	Length (In Km.)	Contractor Name	Details of Maintenance Cost as per Agreement (In Lacs)							Actual Date of Completion	Allotment Received (In Lacs)							Current Demand (In Lacs)					Remarks
				1st Yr	2nd Yr	3rd Yr	4th Yr	5th Yr	Total	1st Yr		2nd Yr	3rd Yr	4th Yr	5th Yr	Total	1st Yr	2nd Yr	3rd Yr	4th Yr	5th Yr	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	Dehri Tliauthu PWD(Jarhan More) to Bilkram Bigha	1.405	Basant Kumar	0.47527	0.59556	3.27674	1.09475	3.64571	9.0880	06.10.2020	0.45879	0.59545	3.26841	'	'	4.32265	'	'	'	1.09356	'	1.09356	4 th Yr Maint	

29.11.24
D.A.O
RWD (W) Div. Dehri

29.11.24
Executive Engineer
Rural Work's Department
Works Division- Dehri